

## **\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.10.2020 जनपद देवरिया\***

दिनांक 29.10.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

**\*01-उप निर्वाचन-2020 के दृष्टीगत कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, 20 लीटर कच्ची शराब व देशी शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट।\***

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय एवं संलिप्त व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.10.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री शिष्यपाल के निर्देशन एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए संभावित स्थानों पर दबिस व चेकिंग करते हुए कुल 01 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से कुल 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया एवं लगभग 300 लीटर लहन नष्ट किया गया। उक्त अभियान अभी जारी है।

**\*02.थाना लार पुलिस द्वारा एक अदद वाहन ट्रक से 19 राशि गोवंशीय पशु के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-\***

दिनांक 29.10.2020 को थानाध्यक्ष लार मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वाहन चेकिंग के दौरान मेहरौना चेक पोस्ट पर से 01 अदद ट्रक बिना नम्बर से 19 राशि गोवंशीय पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते हुए एक व्यक्तिय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तिय से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.रिंकू यादव पुत्र रामचन्द्र यादव सा0 बेलवारपार थाना गॅम्भीरपुर आजमगढ बताया, उक्त के सम्बन्ध में थाना लार पुलिस द्वारा 3/5ए /8 गोवध निवारण व 11 पशु कुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*03. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 29.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 29.10.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 183 वाहनों से 163000 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

